



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 922]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 922]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1238(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग-1 और वर्ग-2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में जहां तक उसका संबंध उत्पादन अधिकारी से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, में उत्पादन अधिकारी पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्पादन अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2018 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्पादन अधिकारी	*1 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसूचिवीय	स्तर 7 (44900-142400)रु.	लागू नहीं होता	"30 वर्ष से अधिक से नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से XIIवीं उत्तीर्ण (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (iii) मुद्रण प्रौद्योगिकी, टाइप डिजाइन, लेआउट मुद्रण और बुलेटिन, बुकलेट, आवधिक पत्रिकाएं आदि निकालने तथा कीमत और एवं मूल्यांकन में दो वर्ष का अनुभव हो टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष की परिचीक्षा अवधि में दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।

<p>टिप्पण 2. अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अहर्ता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती है।</p>		
---	--	--

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>
(10)	(11)
<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघुकालिक संविदा सहित); ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (लघु कालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उद्यम अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था/अनुसंधान संस्थान के अधिकारी; (क) (I) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; अथवा (II) वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रूपए) या समतुल्य में स्तर-6 में नियमित आधार पर अथवा मूल काडर अथवा विभाग में पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण: प्रतिनियुक्त (अल्प कालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त से नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी।</p>

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय संपुष्टि समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर महानिदेशक : अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2. निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3. उप निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 	<p>सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।</p>

[फा. सं. 3-2/2018-योजना और एचआरडी (आरआर)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

G.S.R. 1238(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class I and II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967 insofar as it relates to the post of Production Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Production Officer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Production Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.— The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. —The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Production Officer.	*1(2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- ministerial.

Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs.44900-142400)	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

		Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).
--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	
(7)	
Essential: (i) Class XII pass from a recognised Board or Institute; (ii) Diploma in Printing technology from a recognised University or Institute. (iii) Two years experience in printing technology, type design, layout printing and bringing out bulletins, booklets, periodicals including price and evaluation. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	2 years for direct recruits. Note: The period of probation of two years for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Deputation (Including Short Term Contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised university/institute/research institution: (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-6 in the Pay Matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in Column No.(7). Note-1: (The period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India (ASI) - Chairman (2) Director (Publication), ASI - Member (3) Deputy Director (Administration), ASI - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. 3-2/2018-Plg & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Admn.)